



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024 (PHALGUNA 7, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2024

**संख्या 4/8/2024/4क1.**— हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसिमन 1994 के नियम, 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी सभी आदेशों/अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट **नगर निगम, हिसार, जिला हिसार** के वार्डों के परिसिमन हेतु ऐसे व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् राज्य सरकार अधिसूचना पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग/निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा **उपायुक्त, हिसार** के माध्यम से किसी व्यक्ति से अधिसूचना प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेंगी:—

### सीमाओं की अनुसूची

**वार्ड नं० 01:—** नगर निगम सीमा तथा बगला रोड के संगम से प्रारम्भ होकर (1DVJ2UM4) पूर्व की ओर पुराने सिरसा-हिसार-दिल्ली रोड पर स्थित Department Of Agriculture And Farmer Welfare, GoH Office (1DJCOPP7,) तक; तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व की ओर पुराने सिरसा-हिसार-दिल्ली रोड से सैक्टर-14 की बाउण्ड्री के साथ-साथ बस स्टैण्ड के सामने से होते हुए तालाकी गेट पर स्थित गीता देवी की दुकान (1DN6PL72) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पुराने बस स्टैण्ड से होते हुए मन्नू डिपार्टमेंटल स्टोर तक (1DDCYM7); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर होते हुए गोस्वामी हस्पताल से होते हुए धोबी घाट पर स्थित रुद्रा फैशन (1D5ULOT2) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर पुराने सिरसा-हिसार-दिल्ली रोड पर स्थित मूथूथ फाईनैस (निर्मात्रण होटल) तक (1DHDVCP3); तत्पश्चात् पूर्व की ओर गुरुद्वारा के सामने से होते हुए नागोरी गेट तक (1D2BUU58); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर परिजात चौक पर प्रदीप कुमार की दुकान (1DFTOVQ7) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पुरानी मण्डी रोड के साथ-साथ ज्ञान ज्योति चौक (1D1KA8Q4) तक; तत्पश्चात् पश्चिम-दक्षिण की ओर श्री श्याम इन्टरप्राइसिस (1DKBO2T8) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर सी.ए.वी. स्कूल वाली गली से मकान नं० 135 (1DG7H1Q7) तक; तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर हिसार-बठिण्डा रेलवे लाईन के साथ-साथ नगर निगम सीमा (29.177670, 75.666141) तक तत्पश्चात् उत्तर की ओर नगर निगम की सीमा तथा बगला रोड के संगम (1DVJ2UM4) तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 02:-** नगर निगम सीमा (1DVJ2UM4) तथा बगला रोड के संगम से प्रारम्भ होते हुए राना माईनर (1DCBOGG2) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर नगर निगम सीमा के साथ-साथ (राना माईनर) सिरसा रोड से होते हुए तलवण्डी राणा रोड (29.204332 75.745438) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर नगर निगम की सीमा के साथ-साथ सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (29.175071, 75.748960) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर जी.जे.यू. की उत्तरी-पूर्वी किनारे तक तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सेक्टर 21-पी डिस्पोजल (1D8H5YF2) तक तत्पश्चात् पश्चिम की ओर सरकारी स्कूल (1DOHQ6D1) के किनारे तक तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर नई ऑटों मार्केट फेस 3 की सीमा के साथ-साथ नई ऑटों मार्केट फेस 3 के उत्तरी-पूर्वी किनारे तक (1DU8MD29); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गुज्जर धर्मशाला नजदीक गुरु जम्बे वर यूनिवर्सिटी (1DR5GN57) तक तत्पश्चात् दक्षिण की ओर पड़ाव चौक तक (1DPC5JA2) तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर गांधी चौक पर स्थित सतीश की दुकान (1DM9RRM1) तक तत्पश्चात् पश्चिम की ओर खजाचियन बाजार की उत्तरी दिशा से होते हुए गुलाब सिंह चौक (1D5U9CL5, Beauty Corner) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर नागोरी गेट (1DODJ4T3) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गुरुद्वारा के सामने से होते हुए मूथूथ फाईनैस (निमंत्रण होटल) (1DHDVCP3) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर धोबी घाट पर स्थित रुद्रा फैशन की दुकान (1D5ULOT2) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर गोस्वामी होस्पिटल से होते हुए बस स्टैण्ड के विपरित अवरस एकेडमी (1DQUFC85) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर तालाकी गेट पर स्थित गीता देवी की दुकान (1DN6PL72) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पुराने सिरसा-हिसार-दिल्ली रोड से बस स्टैण्ड, सेक्टर-14 की सीमा के साथ-साथ पुराने सिरसा-हिसार-दिल्ली रोड पर स्थित Department Of Agriculture And Farmer Welfare, GoH Office (1DJCOPP7) तक तत्पश्चात् पश्चिम की ओर नगर निगम की सीमा (1DVJ2UM4) तथा बगला रोड के संगम तक जोकि प्रारंभिक बिन्दु है।

**वार्ड नंबर 3:-** गुलाब सिंह चौक (1DO8E2U2, Robin) से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर खजाचियन बाजार रोड, गांधी चौक से होते हुए भगत सिंह चौक (1DLFAUD2, Ranjeet Kumar, Daleep Kumar) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर मुल्तानी पार्क मुल्तानी चौक (1DFAP3A3) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर मुल्तानी चौक पार्क रोड से होते हुए राजू इंटरप्राइजिज से होते हुए कक्कड़ इंटरप्राइजिज (1D2WCAR1) (1DNUWNO2) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर सत्य सनातन देवालय मंदिर (1DVNY4M0, Kundan book centre) तक तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व की ओर डॉ. बनारसी दास शर्मा होस्पिटल (1DTCBC25) तक; तत्पश्चात् पश्चिम-दक्षिण की ओर शिव ए टू जेड स्टोर, सावित्री बाई फुले भवन, बल्लू राम रामप्यारी ट्रस्ट से होते हुए सैनी सभा ट्रस्ट तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर श्री हनुमान मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट (1D778KY6, opposite mandir) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर शिव मेडिको नजदीक शिव मंदिर से होते हुए पीरनाथ ट्यूबवेल (1DHATGW0) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गली के पश्चिम-दिशा से गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, (1D9JLMN8) दिनेश स्टूडियो, सेठी अस्पताल, श्री शिव मंदिर, रिद्धि-सिद्धि मिनी स्टोर से होते हुए जाखल रेलवे लाइन (29.0907, 75.4329) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर जाखल रेलवे लाइन के उत्तरी किनारे के साथ-साथ होते हुए जाखल रेलवे लाइन तथा हिसार शहर रोड पर बने पुल के संगम (1D2FDKY8, Dental Excellence Shiva Flex Printers) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर हिसार सिटी शहर रोड के पश्चिमी किनारे के साथ रेड स्क्वेयर, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस से होते हुए नागोरी गेट से होते हुए रामा ऑप्टिकल नागोरी गेट (1DBDLOJ4, SANJAY KUMAR JAIN) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर अजंता ऑप्टिकल, गीता पनवाड़ी से होते हुए गुलाब सिंह चौक तक जो की प्रारम्भिक का बिंदु है। (1DO8E2U2, Robin)

**वार्ड नंबर 4:-** शिव चौक नजदीक शिव मंदिर हिमांशु मोटर बाइंडिंग (1D5HPT65) से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर हनुमान मंदिर वाली गली (1D23KBL6) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर सावित्री बाई फुले भवन से होते हुए बल्लू राम रामप्यारी ट्रस्ट (1DMGU125, Saini Smaj Bhawan) तक; तत्पश्चात् डॉ. बनारसी दास शर्मा होस्पिटल (1DJH3JJ9) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर सत्य सनातन देवालय मंदिर से होते हुए कक्कड़ इंटरप्राइजिज (1DO2Y6B7, SURENDER KUMAR AND HARISH) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर रिद्धि सिद्धी शरणम से होते हुए वीर हकीकत राय पार्क के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर पार्क की चार दिवारी के साथ-साथ हकीकत राय पार्क उत्तरी-पूर्वी कोने (1DGHQVF7) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर वाल्मीकि धर्मशाला, नंदी डेयरी फार्म, भारत भूषण वधवा के मकान, आनंदपुर सत्संग भवन, श्री बाला जी सर्विस स्टेशन, शिवम पीर भण्डार के पश्चिम से होते हुए राजकीय मिडल स्कूल 3 पुरानी सब्जी मण्डी चौक के दक्षिणी पूर्वी कोने (1DR153M0, Bagwati) तक; तत्पश्चात् उत्तर पूर्व की ओर टंडी सड़क आईटीआई के कोने (1DCMC510, Siranji Lal) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर हनुमान मंदिर (1D4MN213, MC Park) तक; तत्पश्चात् दक्षिण पश्चिम की ओर तंवर हाउस कैटरिंग सॉल्यूशन (1D1CJBP2, Kamlesh W/o Rohtash) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सैनी डेयरी (1DNYHV55, Pawan Rathi) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सैनिक कुलिंग स्टेशन (1DBRCUW4, 240 Chandu Lal Bagh) तक; तत्पश्चात् पश्चिम-दक्षिण की ओर गौरण फर्नीचर वर्क्स (1DARPE68, 321-A Ekta Nagar) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर लुधियाना रेलवे लाइन तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर सब्जी मंडी पुल के नीचे से होते हुए जाखड़ रेलवे लाइन, ब्रिज भूषण जैन के मकान (1DEP4O13, Brij Bhushan Jain, Ashok Kumar Jain) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर हिमांशु मोटर वाइंडिंग वर्क्स शिव चौक नजदीक शिव मंदिर (1D5HPT65) तक जो की प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नंबर 5:-** भगत सिंह चौक से प्रारम्भ होकर (1DC8L4V3) तत्पश्चात् पूर्व की ओर ओ.पी. महाजन के मकान (1D34CR55) तक; तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर जहाजपुल लाहोरिया चौक से होते हुए वाइन शॉप सब्जी मण्डी विपरित गेट नं० 2 (1D2WTUU7) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर मणिराम पूर्व पार्श्व के मकान (1D3BEM16, Ajit Singh) से होते हुए मनोहर आटा चक्की, 12 क्वाटर रोड (1DPK31F1, KAMLESH) के साथ-साथ सैनी होण्डा सर्विस (1DLOYD84, Saini

Honda Service) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर वेद प्रकाश, यशपाल के मकान (1DV2VFR1, VED PARKASH, YASH PAL) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पंकज, आशीष के मकान (1DLJ6943, Pankaj, Ashish) (1DOF3T37) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर आनंद कृपा सागर के पीछे से होते हुए परमहंस जी श्री योग दरबार ब्रह्म ज्ञान मंदिर की पार्किंग (1DW18622) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर झंडई के मकान (1DTOGL45, 5, Kunj Lal Garden) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर श्री हनुमान मंदिर शांति नगर (1D93VLO8, 1/11-B, Vikas Kumar) से होते हुए पश्चिमी सीमा की तरफ वुमन आई.टी.आई. के किनारे पर बने शीतला माता मंदिर (29.0948,75.4339) तक तत्पश्चात् दक्षिण की ओर पुराने सब्जी मंडी चौक (1DR153M0, Bagwati) तक; तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर श्री आनंदपुर पार्क से होते हुए मुल्तानी चौक पार्क, गोविंदगढ़ बाजार रोड के साथ-साथ भगत सिंह चौक (1DC8L4V3) तक जो की प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 6:-** गुज्जर धर्मशाला नजदीक गुरु जम्बे वर यूनिवर्सिटी (1DR5GN57) से प्रारम्भ होकर नई ऑटो मार्केट फेस 3 की सीमा के साथ-साथ नई ऑटो मार्केट फेस 3 के उत्तरी-पूर्वी किनारे तक (1DU8MD29); तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व की ओर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की सीमा के साथ-साथ सरकारी स्कूल के किनारे तक (1DOHQ6D1); तत्पश्चात् पूर्व की ओर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की सीमा के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डिस्पोजल के कोने तक (1D8H5YF2); तत्पश्चात् दक्षिण में सेक्टर 21-पी की सीमा के साथ-साथ गली नंबर 6, टिब्बा दाना शेर, मिल गेट रोड पर स्थित कन्हैया स्वीट (1DGQTWJ2) से गली नं० 6, 12 क्वार्टर रोड पर सुशील के मकान तक (1DVLW9M3); तत्पश्चात् पूर्व की ओर राम अवतार शैटरिंग स्टोर (1DMY5178) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सूर्य बेकरी के समीप ओमप्रकाश के मकान तक (1DA3MC84); तत्पश्चात् पश्चिम में गोल्डन स्कूल (1DB1P2Y5) तक; तत्पश्चात् उत्तर में मनोहर आटा चक्की (1DLJC2D9) से मनीराम पूर्व एम.सी (1DNQA389) के मकान से मिल गेट रोड पर नई सब्जी मंडी गेट नंबर 2 के समीप वाइन शॉप 1DFN3TB6 तक; तत्पश्चात् पश्चिम में मिल गेट रोड से जहाजपुल (1DV6KMU5) तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर ओम प्रकाश महाजन (1D34CR55) के मकान तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर भगत सिंह चौक (1D891W25) तक; तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर पड़ाव चौक (1DPC5JA2) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर नई ऑटो मार्केट फेज 3 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गुज्जर धर्मशाला नजदीक गुरु जम्बे वर यूनिवर्सिटी (1DR5GN57) तक जो की प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 7:-** सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित गुरु जंभेश्वर युनिवर्सिटी के उत्तरी पूर्वी किनारे (1DMU5MF6) से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर एयरपोर्ट चौक तक (1DCRVGG4); तत्पश्चात् दक्षिण में एच.टी.एम. पुलिस थाना तक (1DFYKB21); तत्पश्चात् पूर्व में विनोद नगर मिल गेट रोड पर स्थित प्राशर बिजली की दुकान तक (1D7KY5M7); तत्पश्चात् दक्षिण में कप्तान स्कूल रोड पर स्थित अप्सरा ब्यूटी पार्लर की दुकान तक (1DRLTK46); तत्पश्चात् पूर्व में कप्तान स्कूल पर स्थित बिश्नोई किरयाणा की दुकान तक (1D1JA436); तत्पश्चात् दक्षिण में सीताराम ट्यूबेल के समीप सतवीर के घर तक (1DKEAYV9); तत्पश्चात् पश्चिम में लॉर्ड विष्णु स्कूल तक (1D3W4FR6); तत्पश्चात् दक्षिण में कमलेश (1DL49C4) के घर तक; तत्पश्चात् गोयल किरयाणा (1D9D9QB3) से हनुमान हलवाई से शेर सिंह के डिपो (1DN1DTL5) से योग स्कूल (1DT9TNU0) के सामने गली नंबर 18, 12 क्वार्टर रोड पर स्थित प्रवीण बिजली की दुकान (1DNQUPK8) तक; तत्पश्चात् दक्षिण में चिराग प्रॉपर्टी (1DBWRMO5) तक; तत्पश्चात् पश्चिम में सूर्य बेकरी (1DA3MC84) के समीप ओमप्रकाश के मकान तक; तत्पश्चात् उत्तर में राम अवतार शैटरिंग स्टोर (1DMY5178) तक; तत्पश्चात् पश्चिम में गली नंबर 6, 12 क्वार्टर रोड पर स्थित सुशील के मकान तक (1DVLW9M3); तत्पश्चात् उत्तर की ओर गली नंबर 6 टिब्बा दाना शेर मिल गेट रोड पर स्थित कन्हैया स्वीट्स (1DGQTWJ2) से सेक्टर 21-पी डिस्पोजल की सीमा से सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर स्थित गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी के उत्तरी-पूर्वी किनारे तक जोकि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 8:-** आई.टी.आई. के किनारे के समीप चौगान माता मंदिर (1DWY68R5) से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर आई.टी.आई. की सीमा के साथ-साथ ज्ञान शैटरिंग स्टोर (1DHJ65E0) से ब्रह्म ज्ञान कुटिया तक (1DOF3T37); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व में पंजाबी बाग से सुमन हाई स्कूल (1DNO23W9) से 12 क्वार्टर रोड पर स्थित वीटा बूथ (1DKUAOV1) तक; तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व की ओर 12 क्वार्टर रोड के साथ-साथ मनोहर आटा चक्की के समीप किरण के मकान तक (1DLJC2D9); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गोल्डन स्कूल तक (1DB1P2Y5); तत्पश्चात् पूर्व की ओर चिराग प्रॉपर्टी तक (1DBWRMO5); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सरोज के मकान तक (1D4PWB3); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर खेतों की सीमा के साथ-साथ पुराने पीने के पानी के नाले तक (1DNQYCY7); तत्पश्चात् दक्षिण पूर्व में नाले के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जल घर तक (1DF6NV37); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम में 44 फीट रोड पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-3 के किनारे तक (1DG41E24); तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर लीलावती अस्पताल व बालाजी चौक से बाल्मीकि चौक तक (1DOKP4H3); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर शिव चौक तक (1D7UKLD4); तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर शिवालिक स्कूल (1D3CMU64) तक; तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर हनुमान मंदिर तक (1D4MN213); तत्पश्चात् उत्तर की ओर आई.टी.आई. के दक्षिणी-पूर्वी किनारे तक (1D73PBD7); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर टंडी सड़क पर आई.टी.आई. के दक्षिणी-पूर्वी किनारे तक (1DCMC510); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर आई.टी.आई. के किनारे के समीप चौगान माता मंदिर तक (1DWY68R5) जोकि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 9:-** सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर स्थित एयरपोर्ट चौक (1DGDH8W2) से प्रारंभ होकर सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समीप डी.एस. होटल (1DM1T1A9) तक; तत्पश्चात् पश्चिम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस तक (1D21VW92); तत्पश्चात् दक्षिण में पीने के पानी के नाले तक (1DP1MJF7); तत्पश्चात् पश्चिम में पीने के पानी के नाले के साथ-साथ धर्मपाल के मकान से (1DECY51) लुधियाना रेलवे लाइन पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-03 के किनारे तक (1D4GKO36); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर-03 की सीमा के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जल घर तक (1DF6NV37); तत्पश्चात् उत्तर पश्चिम की ओर नाले के साथ-साथ कृषि फार्म तक (1DNQYCY7); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर सरोज के मकान तक (1D4PWB3); तत्पश्चात् गली नंबर 18, 12 क्वार्टर रोड पर स्थित प्रवीण बिजली की दुकान तक (1DNQUPK8); तत्पश्चात् पूर्व में योग स्कूल से शेर सिंह डिपो (1DN1DTL5) से हनुमान हलवाई से गोयल किरयाणा स्टोर से कमलेश के मकान तक (1DLD49C4); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व में लॉर्ड विष्णु स्कूल (1D3W4FR6) से सीताराम के ट्यूबवैल के समीप सतवीर के मकान से (1DKEAYV9) कप्तान स्कूल रोड पर बिश्नोई किरयाणा तक (1D1JA436); तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम में कप्तान स्कूल रोड पर स्थित अप्सरा ब्यूटी पार्लर तक (1DRLTK46); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व में विनोद नगर में मिल गेट रोड पर स्थित परासर बिजली की दुकान तक (1D7KY5M7); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर एच.टी.एम. पुलिस थाना तक (1DFYKB21); तत्पश्चात् उत्तर में सिरसा-हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर स्थित एयरपोर्ट चौक (1DGDH8W2) तक जोकि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 10:-** हॉली चार्च स्कूल के समीप नारंग (1DK6DP11) के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर लुधियाना रेलवे लाईन व धर्मपाल के मकान (1DECY51) से होते हुए नाला क्रॉसिंग (1DP1MJF7) तक; तत्पश्चात् दक्षिण में अरमान सोसाईटी के मुख्य द्वार (1D4NQ7L5) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर खाटू वस्त्रालय (1DOGUW25) से जॉन सिना हेयर डू की दुकान (1DM7LEL7) तक; तत्पश्चात् दक्षिण में मनीश ज्वेलर्स (1D8JW914) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर नैन्सी हस्पताल (1DJAQ8V1) तक; तत्पश्चात् दक्षिण में बी.एच.पी. बीज भंडार (1DFE3JD1) तक; तत्पश्चात् बी.एच.पी. मंदिर (1DUNP348) की सीमा के साथ-साथ श्याम कलाथ हाऊस (1DHAD355) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर दशमी मंदिर (1DMQECM7) रोड पर हरी प्रशाद के मकान तक; तत्पश्चात् दक्षिण में श्री हनुमान मंदिर नजदीक नया बस स्टैंड (1DPJ9CT0) सातरोड तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर अजयबीर सिंह के मकान (1DC7W244) तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर सूर्य नगर फाटक (भिंवानी रेलवे लाईन) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर हॉली चार्च स्कूल के समीप नारंग (1DK6DP11) के मकान जोकि प्रारंभिक बिन्दु है।

**वार्ड नं० 11:-** जाखल रेलवे लाइन और मिर्जापुर रोड (1DY2NKC7) के संगम से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व की ओर नगर निगम हिसार की सीमा से होते हुए रायपुर रोड तक (1DD8DM82); तत्पश्चात् पूर्व की ओर बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी और ढाणी रायपुर रोड (1DRF59Q5) तक; तत्पश्चात् दक्षिण पश्चिम की ओर बालसमंद के साथ-साथ बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी और दिल्ली हिसार रोड (1DV52LE5) तक; तत्पश्चात् पूर्व-दक्षिण की ओर हिसार-दिल्ली रोड के साथ-साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक (1D44UHA1) तक; तत्पश्चात् पूर्व की ओर हिसार दिल्ली रोड के साथ-साथ नगर निगम हिसार की सीमा तक (1DF7DNF8); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर नगर निगम हिसार की सीमा के साथ-साथ रेवाड़ी रेलवे लाइन तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर रेवाड़ी रेलवे लाइन के साथ-साथ बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी तक (1DVHCRW9); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ-साथ (1DTK6JF3) जोकि साउथ बायपास है तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर नगर निगम हिसार के एम0आर0एफ0 स्टेशन तक (1D72BR83); तत्पश्चात् पूर्व की ओर सातरोड खास व खुर्द के अंदर के रोड से होते हुए श्री शिव मंदिर तक (1DEKRFC3); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व-उत्तर की ओर बाबा हर्षक पुरी मंदिर तक (1DUNP348); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बी0एच0पी0 बीज भंडार तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर नैन्सी अस्पताल तक (1DJAQ8V1); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर मनीष ज्वेलर्स तक (1D8JW914); तत्पश्चात् उत्तर की ओर जॉन सीना हेयर डू तक (1DJKJ7O2); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर अरमान सोसायटी बी0एच0पी0 कॉलोनी तक (1DLQT7M7); तत्पश्चात् उत्तर की ओर अल्ट्राटेक सीमेंट स्टोर से होते हुए हिसार-दिल्ली रोड तक (1D5W3EA4); तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर हिसार-दिल्ली रोड के साथ-साथ हिसार-दिल्ली रोड के संगम और जाखल रेलवे लाईन तक; तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर जाखल रेलवे लाइन के साथ-साथ जाखल रेलवे लाइन और मिर्जापुर रोड तक (1DY2NKC7) जो कि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 12:-** हिसार दिल्ली रोड व सैक्टर-1 व 4 (1D7C8UH7) के संगम से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर हिसार दिल्ली रोड के साथ-साथ टावर एन्कलेव (1DY2VEE7) से विद्युत भवन की दक्षिणी दिशा की चारदीवारी के साथ साथ (1DH7DTF2) होते हुए भिवानी रेलवे लाईन (ऊपर से गुजरने वाला पुल) से गुजरते हुए एम0आर0एफ0 स्टेशन (1DQ8CE10) के पूर्वी उत्तरी कोने तक; तत्पश्चात् दक्षिणी दिशा की ओर (1DU8VVN5) नगर निगम क्षेत्र की सीमा से होते हुए साउथ बाईपास तक; तत्पश्चात् पश्चिम दिशा की ओर साउथ बाईपास के साथ साथ आगे बढ़ते हुए पुलिया तक (1DLEYFU8) जोकि ओ0पी0 जिंदल स्कूल सड़क पर मिलती है; तत्पश्चात् उत्तर की ओर ओ0पी0 जिंदल स्कूल सड़क के साथ-साथ सैक्टर 9-11 मैन रोड तक (1D9M5267); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर सैक्टर 9-11 के मैन रोड के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए तोशाम रोड तक (1DVJVER2); जोकि सैक्टर 9-11 मैन रोड व तोशाम रोड का संगम बनता है (नजदीक पुलिस नाका); तत्पश्चात् उत्तर की ओर तोशाम रोड पर आई0टी0आई0 चौक तक (1DP7NQW2) (जोकि तोशाम रोड व जिंदल अस्पताल का संगम) है; तत्पश्चात् पूर्व की ओर जिंदल अस्पताल रोड के साथ-साथ जिंदल अस्पताल की उत्तरी-पश्चिमी किनारे तक (1DVTGHV8); तत्पश्चात् पूर्व की ओर जिंदल अस्पताल की उत्तरी चारदीवारी के साथ साथ तत्पश्चात् जिंदल अस्पताल के

उत्तर-पूर्वी किनारे तक; तत्पश्चात् जिंदल अस्पताल के दक्षिणी चारदीवारी के साथ-साथ होते हुए मकान नं० सी० 257 (1DWTEFJ1); तत्पश्चात् मकान नं० सी० 257 (1DWTEFJ1) के आगे से होते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए मकान नं० 287 मॉडल टाउन एक्सटेंशन तक (1DGQ59E0); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर कामरा, मकान नं० 44 तक (1DJU5924); तत्पश्चात् उत्तर की हिसार दिल्ली रोड व सैक्टर 1 व 4 के संगम तक (1D7C8UH7) जोकि प्रारंभिक बिन्दू है।

**वार्ड नं० 13:**— पुराने हिसार दिल्ली रोड और रेवाड़ी रेलवे लाइन (1D9RPMF8) से प्रारंभ होकर नजदीक शांति मिशन हॉस्पिटल से उत्तर की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ शारदा पब्लिक स्कूल (1D3YVQ89) से होते हुए रेलवे डबल फाटक तक (1DN26CC0); तत्पश्चात् पूर्व की ओर दिल्ली रेलवे लाइन (1D68R3J2) के साथ-साथ 44 फीट रोड व सैक्टर 1 व 4 के संगम तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सैक्टर 1 व 4 के रोड पर होते हुए पुराने दिल्ली सिरसा हिसार रोड तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर पुराने दिल्ली सिरसा हिसार रोड के साथ-साथ देव पेट्रोल पंप (1D7C8UH7) के साथ लगती गली गली से हाउस नंबर 44 कामरा के मकान तक (1DJU5924); तत्पश्चात् पूर्व की ओर मकान नंबर 287 मॉडल टाउन एक्सटेंशन तक (1DGQ59E0); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर मकान नंबर सी-257 (1DWTEFJ1); तत्पश्चात् पश्चिम उत्तर की ओर जिंदल हॉस्पिटल रोड की पूर्व की चार दिवारी से होते हुए जिंदल हॉस्पिटल बाउंड्री के उत्तरी पूर्वी (1DVTGHV8) तक; तत्पश्चात् पश्चिम उत्तर की ओर जिंदल हॉस्पिटल पश्चिम-उत्तरी के क्वार्टर वाली बाउंड्री (1DVTGHV8) से होते हुए जिंदल हॉस्पिटल क्वार्टर के पूर्वी पश्चिमी कोने तक; तत्पश्चात् पश्चिम की जिंदल हॉस्पिटल क्वार्टर के उत्तरी पश्चिमी चार दिवारी तक (1DVTGHV8); तत्पश्चात् दक्षिणी पूर्वी जिंदल हॉस्पिटल रोड तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर जिंदल हॉस्पिटल रोड पर जिंदल चौक (1D7C8UH7) तक; तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पुराने सिरसा हिसार दिल्ली रोड पर बाइक प्वाइंट डाबरा चौक (1DGK9ER2) से होते हुए पुराने हिसार दिल्ली रोड वाया रेवाड़ी रेलवे लाइन तक (1D9RPMF8) जो की प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 14:**— दक्षिणी बाईपास और राजगढ़ रोड रेलवे लाईन (1D9RPMF8) के संगम से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए शांति मिशन अस्पताल तक; तत्पश्चात् पूर्व दिशा की ओर दिल्ली-सिरसा-हिसार रोड पर शर्मा बीकानेर स्वीट्स तक (1D7C8UH7); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर जिंदल अस्पताल रोड पर आई०टी०आई० चौक (1DRGT2A9) तक; तत्पश्चात् दक्षिण में तोशाम रोड के साथ-साथ सैक्टर 9 व 11 के मैनरोड तक (1D5DPUL7); तत्पश्चात् पूर्व में सैक्टर 9 व 11 के मैनरोड के साथ-साथ ओ०पी० जिन्दल स्कूल रोड तक (1D9M5267); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर ओ०पी० जिन्दल स्कूल रोड पर पुलिया तक (1DLEYFU8); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी व दक्षिणी बाईपास के साथ-साथ दक्षिणी बाईपास और राजगढ़ रोड रेलवे लाईन (1D9RPMF8) के संगम तक जोकि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 15:**— फ्रेश फूड बेकर कैप चौक (1DNN6HP1) से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पुराने कार्यालय से रेलवे लाइन तक (1DQ2W7E4); तत्पश्चात् पूर्व की ओर डबल फाटक ठंडी सड़क से रेलवे लाइन तक (1DC3PGB5); तत्पश्चात् उत्तर की ओर सफेदी की भट्टी तक (1DBRCUW4); तत्पश्चात् पूर्व की ओर राजेश सैनी के घर तक (1DEDLDN3); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर शिव चौक तक (1DCQVV50); तत्पश्चात् पूर्व की ओर चहल पार्क तक (1D4O85O0); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर रामलीला चौक (1DCW1R34) से बालाजी चौक से (1DNDOTG8) रामकुमार भूतिया के घर तक (1D9Y1J88); तत्पश्चात् 44 फीट रोड से सैक्टर 3 गली नंबर 1 तक (1DALVJM3); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर भिवानी रेलवे लाइन तक; तत्पश्चात् उत्तर की ओर रेलवे लाइन (1DUO2OO7) के साथ-साथ खाटू श्याम इंटरप्राइजेज तक (1DW4V7C6); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ सी०एम०सी० अस्पताल तक (1DDKAJT8); तत्पश्चात् दक्षिण पश्चिम की ओर पुराने दिल्ली सिरसा रोड पर फ्रेश फूड बेकर कैप चौक तक (1DNN6HP1) जो कि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 16:**— कैप चौक हिसार शहर रोड से (1DGWWA94, Haryana Tourism Department GOH) प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर टाउन पार्क, शांति देवी होस्पिटल (1DNK2451, SURENDER KUMAR) से होते हुए बागड़ रेलवे लाइन तक; तत्पश्चात् दक्षिण दिशा की ओर बागड़ रेलवे लाइन के साथ वाल्मीकि चौपाल से होते हुए बागड़ रेलवे लाइन और दक्षिणी बाईपास के जंक्शन तक (1DBYGND5, Dharshan Kumar); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर दक्षिण बाईपास रोड के साथ होते हुए कैमरी रोड और दक्षिणी बाईपास रोड से जंक्शन तक (1DY6MDU3 ARJUN LAMBA); तत्पश्चात् उत्तर दिशा की ओर कैमरी रोड के साथ लेबर चौक पीएलए सामुदायिक केंद्र से होते हुए कैप चौक हिसार शहर रोड तक (1DGWWA94, Haryana Tourism Department GOH) जो कि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 17:**— गली नंबर 1 जवाहर नगर राजगढ़ रोड (वीटा बूथ) (1DC134O3, M.S SHEORAN) से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सामुदायिक केंद्र के सामने कैमरी रोड पर जुनेजा क्लिनिक तक (1DGLTG5, SS KHURANA); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर लेबर चौक, दक्षिणी पैरफेरी रोड से होते हुए कैमरी रोड और रेलवे फाटक के जंक्शन तक (1DECM5A0 Dayanand); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के साथ साथ सच मार्केट मोड तक (1DC19YL2, Kamlesh); तत्पश्चात् उत्तर की ओर सच मार्केट के साथ होते हुए शर्मा निवास (1D8T3W35, 39q) नजदीक नगर निगम शौचालय तक; तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर खेतों के पीछे (1DHMUN43, Roshan), शनि मंदिर से होते हुए चांद राम वर्मा के घर तक (1D44G1O7); तत्पश्चात् उत्तर की ओर टोनी हॉर्स फार्म (1D8MONC8, Plot No. 86a) के साथ होते हुए दक्षिणी बाईपास नजदीक वाटर वर्क्स तक (29.129370, 75.715933); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर हिसार बाई पास रोड के साथ होते हुए हिसार बाई पास रोड और राजगढ़ रोड के जंक्शन तक (1DBODUE5RENU GULATI); तत्पश्चात् उत्तर की ओर राजगढ़ रोड के पूर्वी दिशा के साथ होते हुए गली नंबर 1 जवाहर नगर राजगढ़ रोड (वीटा बूथ) (1DC134O3, M.S SHEORAN) तक जो पहला प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 18:—** कैमरी रोड और दक्षिण बाईपास के जंक्शन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर दक्षिणी बाई पास (1D432Q89 VANDANA WO SH KULBIR SINGH) से होते हुए पूर्व की ओर नगर निगम क्षेत्र की सीमा तक (1DP5FCJ9, RAKESH/JHANGI RAM, 248//16); तत्पश्चात् दक्षिण पूर्व की ओर नगर निगम क्षेत्र की सीमा से होते हुए नगर निगम क्षेत्र की सीमा के दक्षिणी पूर्वी कोने तक (1DMKKNV6, Satyanarayan); तत्पश्चात् पश्चिमी दिशा की ओर नगर निगम क्षेत्र की सीमा के दक्षिण के साथ होते हुए राजगढ़ रोड तक (1D8CQG63, 3530, Godara Hara Tall); तत्पश्चात् राजगढ़ रोड के साथ होते हुए बीकानेर स्वीट्स गली नंबर 03 राजगढ़ रोड तक (1DELN5T, Ishwar Singh); तत्पश्चात् पूर्व की ओर किड्स हवन स्कूल से होते हुए शीतल भवन तक (1DTCU8B3, Baljit Singh); तत्पश्चात् उत्तर की ओर नाला/ड्रेन के साथ होते हुए ओमप्रकाश सुथार के घर तक (1D5LQ9H0, Kiran); तत्पश्चात् पूर्व की ओर सेंट निश्चल स्कूल से होते हुए अभय तक (1DYGM8M1 289, Navdeep Colony); तत्पश्चात् उत्तर की ओर मकान नम्बर 89 आजाद भवन के कोने तक (1DOG8RN9, Randhir Singh); तत्पश्चात् धर्मवीर प्रॉपर्टी के (1D61V2W8, Dharamveer Khatana) पूर्वी कोने की ओर होते हुए मारुति प्रॉपर्टी तक (1DAKEAT4, 318A, Navdeep Colony); तत्पश्चात् पूर्व की ओर जयवीर गुर्जर पार्श्व के घर वाली गली से होते हुए टोनी हॉर्स फार्म तक (1DNPVOQ7, VIJAY PARKASH); तत्पश्चात् दक्षिणी दिशा की ओर चाँद राम वर्मा के घर तक (1D44G1O7, Chand Ram); तत्पश्चात् पश्चिमी दक्षिण की ओर खेतों के विपरीत होते हुए शनि देव मन्दिर तक (1DJWYH25, 1234, Umed Vihar Colony); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर शर्मा निवास नजदीक नगर निगम शौचालय तक (1D8T3W35, 39q); तत्पश्चात् पूर्व की ओर सच मार्किट से होते हुए सच मार्किट मोड़ तक (1DC19YL2 Kamlesh); तत्पश्चात् पूर्वी-उत्तर की ओर बागड़ रेलवे लाईन के साथ-साथ तक (1DECM5A0 Dayanand); तत्पश्चात् उत्तर की ओर कैमरी रोड और दक्षिण बाईपास के जंक्शन तक (1D432Q89 VANDANA WO SH KULBIR SINGH) जो कि प्रारंभिक बिंदु है।

**वार्ड नं० 19:—** नगर निगम की पश्चिमी सीमा और बालसमंद उप-शाखा वितरिका के संगम (29.1360, 75.6916) से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर बालसमंद उप-शाखा वितरिका राजगढ़ रोड के साथ-साथ बलवंत गुज्जर की खुली भूमि के पूर्वी कोने तक (1D6V3WJ8, MAHABIR SINGH / RAM PARTAP); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर टोनी हॉर्स फार्म से होते हुए जयवीर गुज्जर पार्श्व वाली गली तक (1DNPVOQ7, VIJAY PARKASH); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर जयवीर गुज्जर वाली गली से होते हुए मारुती प्रॉपर्टी तक (1DAKEAT4, 318A, Navdeep Colony); तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर धर्मवीर प्रॉपर्टी के कोने तक (1D61V2W8, Dharamveer Khatana); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर मकान नं० 89 आजाद भवन तक (1DOG8RN9, Randhir Singh); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर अभय राम प्रसाद के घर तक (1DYGM8M1 289, Navdeep Colony); तत्पश्चात् पूर्व की ओर शिव विला 26 सेंट निश्चल स्कूल (पीछे की ओर) ओ.पी. सुथार (1D5LQ9H0, Kiran) से होते हुए जग्गी के घर के पीछे पानी के नाले तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर नाले के साथ-साथ शीतल भवन के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक (1DTCU8B3, Baljit Singh); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गली के उत्तरी हिस्से के साथ-साथ नन्द राम सांगवान राजगढ़ रोड की दुकान के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक (1DELN5T, Ishwar Singh); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर राजगढ़ रोड के पूर्वी हिस्से के साथ-साथ नगर निगम की सीमा और राजगढ़ रोड के संगम तक (1DOGLE8, 4646, Indra Colony); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर नगर निगम सीमा राजगढ़ रोड से होते हुए नगर निगम की सीमा के पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक (1D27CVR9, Rajendra) (गांव गंगवा के परिधि के पूर्वी हिस्से); तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर नगर निगम सीमा के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ नगर निगम की पश्चिमी सीमा और बालसमंद उप शाखा वितरिका के संगम तक (29.1360, 75.6916) जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

**वार्ड नं० 20:—** नगर निगम सीमा तथा बटिण्डा रेलवे लाईन के संगम (29.162855, 75.699010) से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बटिण्डा रेलवे लाईन के साथ-साथ गली मकान नं० 135 तक (1DGGOHR7); तत्पश्चात् उत्तर की ओर मकान नं० 135 तक (1DBN4WK0); तत्पश्चात् पूर्व दिशा की ओर सी०ए०वी० स्कूल वाली गली से होते हुए गोल्डी कॉपी उद्योग से होते हुए सी०ए०वी० स्कूल के सामने श्री श्याम इंटरप्राइजिज तक (1DKBO2T8); तत्पश्चात् पूर्वी उत्तरी की ओर बढ़ते हुए ज्ञान ज्योति चौक तक (1D1KA8Q4); तत्पश्चात् पूर्व की ओर बढ़ते हुए सुशीला भवन (1DNFVBN3) से होते हुए पारिजात चौक तक (1DMNBHD3); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर हिसार शहर के रोड के साथ-साथ बटिण्डा रेलवे लाईन तक (1DMH3CW4); तत्पश्चात् पूर्व की ओर सब्जी मण्डी उपरी रेलवे फाटक तक; तत्पश्चात् दक्षिण की ओर सब्जी मण्डी उपरी पुल (1DQ2W7E4) से होते हुए कैप चौक तक (1DKMTG86); तत्पश्चात् दक्षिण की ओर कैमरी रोड के साथ-साथ पीने की पानी की नाली तक (1D3U1GQ4) जो कि कैमरी रोड पर स्थित है (1DHHAM45); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर पानी पीने के नाले साथ-साथ राजगढ़ रोड तक तत्पश्चात् दक्षिण की ओर राजगढ़ रोड पर बालसमंद सब-ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी (1DR9C9R8); तत्पश्चात् पश्चिम की ओर नगर निगम की सीमा और बाल समंद सब-ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी तक (29.136070, 75.694377); तत्पश्चात् पश्चिमी नगर निगम की सीमा के साथ-साथ नगर निगम सीमा तथा बटिण्डा रेलवे लाईन के संगम तक (29.162855, 75.699010) जोकि प्रारंभिक बिंदु है।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 26th February, 2024

**No. 4/8/2024-4CI.**— In exercise of the powers conferred under rule 9 of the Haryana Municipal Corporations Delimitation of Ward Rules, 1994 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby publishes the following proposal for the delimitation of the wards of **Municipal Corporation, Hisar, District Hisar** as specified in the schedule given below for information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department/Director, Urban Local Bodies Department through **Deputy Commissioner, Hisar** from any person in respect of the draft notification before the expiry of the period so specified:-

**Schedule of Boundaries**

**Ward No. 1:-** Starting from Junction of MC Limit and Bagla road (1DVJ2UM4) towards East upto Sirsa-Hisar-Delhi Road Department of Agriculture and Farmer Welfare GoH Office (1DJCOPP7); then towards South-East upto Shop of Geeta at Talaki Gate (1DN6PL72) via Sector-14 then towards West upto Ours Academy (1DDCYM7); then towards South via Goswami Hospital upto Rudra Fashion Shop at Dhobi Ghat (1D5ULOT2); then towards East upto Muthoot Finance (Hotel Nimantran) (1DHDVCP3) situated on Old Sirsa-Hisar-Delhi Road; then towards East via Gurudwara upto Nagori Gate (1D2BUU58) then towards South upto Shop of Pardeep on Parijat Chowk (1DFTOVQ7) then towards West upto Gyan Jyoti Chowk (1D1KA8Q4) then towards South-West upto Shree Shyam Enterprises (1DKBO2T8); then towards West upto H.No. 135 (1DG7H1Q7); then towards North-West upto Hisar-Bathinda Railway Line (29.177670, 75.666141); then towards North upto Junction of MC Limit Boundary and Bagla road (1DVJ2UM4) which is the starting point.

**Ward No. 2:-** Starting from Junction of MC Limit and Bagla road (1DVJ2UM4) upto Rana Minor (1DCBOGG2) then towards East alongwith MC Limit (Rana Minor) via Sirsa Road upto Talwandi road (29.204332, 75.745438); then towards South alongwith MC Limit Sirsa-Hisar-Delhi NH-9 (29.175071, 75.748960); then towards West Boundary of G.J.U upto East-South corner of G.J.U; then towards South upto Sector 21-p Disposal (1D8H5YF2); then towards West upto Govt. School (1DOHQ6D1); then towards North-West alongwith New Auto Market Phase-III Boundary upto North-East corner of New Auto Market Phase-III (1DU8MD29); then towards via Gujjar Dharamshala upto GJU University (1DR5GN57); then towards South upto Padav Chowk (1DPC5JA2); then towards North-West upto Satish Shop at Gandhi Chowk (1DM9RRM1); then towards West alongwith Northern side of Khajanchiyan Bajar Road upto Gulab Singh Chowk (1D5U9CL5); then towards South alongwith Gulab Singh Chowk to Nagori Gate road (1DODJ4T3); then towards West alongwith Hisar City road via Gurudwara upto Muthoot Finance (Hotel Nimantran) (1DHDVCP3); then towards West upto Rudra Fashion Shop at Dhobi Ghat (1D5ULOT2); then towards North via Goswami Hospital, upto opposite side of Bus Stand Ours Academy (1DQUFC85); then towards East upto Geeta Devi Shop at Talaki Gate (1DN6PL72); then towards West Old Sirsa-Hisar-Delhi Road via Bus Stand, Sector 14 Boundary upto Department of Agriculture and Farmer Welfare GoH Office (1DJCOPP7) then towards West alongwith MC Limit and Bagla road (1DVJ2UM4) which is the Starting Point.

**Ward No. 3:-** Starting From Gulab Singh Chowk (1DO8E2U2, Robin) towards East alongwith Khajanchiyan Bajar Road via Gandhi Statue Chowk upto Bhagat Singh Chowk (1DLFAUD2, Ranjeet Kumar, Daleep Kumar); then towards East upto Multani Chowk Park at Multani Chowk (1DFAP3A3); then towards South alongwith Multani Chowk Park Road via Raju Enterprises upto Kakkar Enterprises (1D2WCAR1); then towards West upto Satya Sanatan Devalya Mandir (1DNUWNO2); then towards South-East upto Dr. Banarsi Dass Sharma Hospital (1DVNY4M0, Kundan book centre); then towards West-South via Shiva A to Z Store, Savitri Bai Fule Bhawan (1DTOBC25) Ballu Ram Rampyari Trust upto Saini Sabha Trust; then towards South upto Shree Hanuman Mandir Dharmarth Trust (1D778KY6, opposite mandir); then towards West upto Shiv medico Near Shiv Mandir (1DHATGW0) then upto Peernath Tubewell; then towards South alongwith Western Side of street Via Gupta trading company (1D9JLMN8), Dinesh Studio, Sethi Hospital, Sh. Shiv mandir, Ridhi-Sidhi mini store up to Jakhal Railway line (29.0907, 75.4329); then towards West alongwith Northern Side of Jakhal Railway line up to Junction of Jakhal Railway line and Hisar City Road at overhead Bridge (1D2FDKY8, Dental Excellence Shiva Flex Printers,); then towards North alongwith Western Side of Hisar City road Via Red Square Market, telephone, exchange, Post Office up to Rama Optical at Nagori Gate (1DBDLOJ4, SANJAY KUMAR JAIN); then towards North Via Ajanta Optical, Geeta Panwari upto Gulab Singh Chowk which is the Starting point (1DO8E2U2, Robin).

**Ward No. 4:-** Starting from Himanshu Motor Binding works at shiv chowk Near Shiv Mandir (1D5HPT65) towards east along with street up to Hanuman Mandir (1D23KBL6); then towards north up to Savitri Phulle Bhawan Balu Ram Rampyari Trust (1DMGU125, Saini Smaj Bhawan); then towards East up to Dr. Banarshi Dass Hospital (1DJH3JJ9); then towards North upto Satya Savatan Devalay, Kakkar Enterprises (1DO2Y6B7, SURENDER KUMAR AND HARISH); then towards North Via Ridhi Sidhi sharnam up to North-West corner of Veer Hakikt Rai Park; then towards East alongwith Boundary Wall of Park up to North-East corner of Veer Hakikat Park at Veer Hakikat Rai Chowk(1DGHQVF7); then towards South alongwith Western Side of road via Balmiki Dharmashal, Nandi Dairy Farm, house of Bharat Bhushan Wadhwa, Anandpur Satsang Bhawan, Sh. Bala ji service station, Shivam Peer Bhandar up to South East corner of Government Middle School no. 3 at old Sabji Mandi Chowk (1DR153M0, Bagwati); then towards North-East upto ITI corner thandi Sadak (1DCMC510, Siranji Lal); then towards East alongwith Boundary wall of ITI upto South-East corner of ITI (1D73PBD7, RAM KUMAR / DEEP CHAND) then toward South upto Hanuman Mandir (1D4MN213, MC Park); then towards South-West upto Tanwar House 589/7 Catering Solution (1D1CJBP2, Kamlesh W/o Rohtash); then towards South upto Saini Dairy (1DT29M31, Roshni Devi Saini Dairy); then towards South upto Saini Cooling Station (1DNYHV55, Pawan Rathi); then towards West upto Gouran Furniture Works (1DBRCUW4, 240 Chandu Lal Bagh); then towards South-West upto Ludhiyana Railway Line (1DARPE68, 321-A Ekta Nagar); then towards West via Sabji Mandi under Bridge upto Brij Bhushan House Jakhal Railway line (1DEP4O13, Brij Bhushan Jain, Ashok Kumar Jain); then towards North upto Himanshu Motor Binding works at shiv chowk Near Shiv Mandir (1D5HPT65) which is the first starting point.

**Ward No. 5:-** Starting from Bhagat Singh Chowk (1DC8L4V3); then towards East upto OP Mahajan House (1D34CR55); then towards North-East via Jahajpul, Lahoria Chowk upto opposite Gate No. 2 Sabji Mandi wine shop (1D2WTUU7); then towards South via H/o Mani Ram Ex-MC (1D3BEM16, Ajit Singh) upto Manohar Atta Chakki at 12 qtr. road (1DPK31F1, KAMLESH); then towards West alongwith 12 qtr. road upto Saini Honda Service (1DLOYD84, Saini Honda Service); then towards South upto VED PARKASH, YASH PAL House (1DV2VFR1, VED PARKASH, YASH PAL); then towards West upto Pankaj, Ashish House (1DLJ6943, Pankaj, Ashish); then towards South alongwith Back Side of Anand Kripa Sagar (1DOF3T37) upto Paramhans Ji Shree Yog Darbar Brahm Gyan Mandir Parking (1DW18622); then towards North upto Jhandai House (1DTOGL45, 5, Kunj Lal Garden); then towards West via Shree Hanuman Mandir Shanti Nagar ( 1D93VLO8, 1/11-B, Vikas Kumar) alongwith Western side of Boundary wall of Women ITI upto corner of ITI, Sheetla Mata Mandir (29.0948,75.4339); then towards South upto old Sabji Mandi Chowk(1DR153M0, Bagwati); then towards North-West via Shree Anandpur Park, Multani Chowk park alongwith Govindgarh Bajar road upto Bhagat Singh Chowk (1DC8L4V3) which is the starting point.

**Ward No. 6:-** Starting from Gujjar Dharmshala Near GJU (1DR5GN57) then upto North-East Corner of New Auto Market Phase III alongwith Boundaries of New Auto Market Phase III (1DU8MD29); then towards South-East upto Govt. School corner alongwith Boudary wall of GJU (1DOHQ6D1); then towards East alongwith Boudary wall of GJU upto HSVP Disposal (1D8H5YF2); then towards South upto H/o Sushil Gali No. 6 12 Qtr. Road (1DVLW9M3) alongwith Boudary wall of Sector 21P & Kanhiya Sweets on Gali no 6 Tibba Danasher (1DGQTWJ2); then towards East upto Ram Avtar Shuttering Store (1DMY5178); then towards South upto H/o Om Parkash near Surya Bekari (1DA3MC84); then towards West upto Golden School (1DB1P2Y5); then towards North upto Wine shop (1DFN3TB6) near New Sabji Mandi Gate No. 2 on Mill Gate Road via Manohar Atta Chakki (1DLJC2D9) on 12 Qtr. Road & H/o Mani Ram Ex-MC (1DNQA389) ; then towards West upto Jahajpul Chowk (1DV6KMU5); then towards South upto H/o OP Mahajan (1D34CR55); then towards West upto Bhagat Singh Chowk (1D891W25); then towards North-East upto Parav Chowk (1DPC5JA2); then towards North alongwith the Western Boundary of New Auto Market Phase III upto Gujjar Dharmshala Near GJU (1DR5GN57) which is starting point.

**Ward No. 7:-** Starting from North-East corner of (GJU1DMU5MF6) on Sirsa-Hisar-Delhi National Nighway-09; then towards East upto AirPort Chowk (1DCRVGG4); then towards South upto HTM PoliceThana (1DFYKB21) ; then towards East upto Prashar Bijli Shop in Vinod Nagar on Mill Gate Road(1D7KY5M7) ; then towards South upto Apsra Beauty Parlour on captain School Road 1DRLTK46; then towards East upto Bishnoi Kiryana shop on Captain School Road 1D1JA436 ; then towards South upto H/o Satbir near Sita Ram Tubewell 1DKEAYV9; then towards West upto Lord Vishnu School 1D3W4FR6; then towards South upto H/o Kamlesh1DLD49C4 ; then towards West upto Parveen Bijli Shop Gali No 18 on 12 Qtr. Road1DNQUPK8 via Goyal Kiryana Store 1D9D9QB3 , Hanuman Halwai, Sher Singh Depot 1DN1DTL5 & Yog School 1DT9TNU0 then toward South upto Chirag Properties 1DBWRMO5 ; then towards West upto H/o Om Parkash near Surya Bekari1DA3MC84 ; then towards North upto Ram Avtar Shuttering Store 1DMY5178; then towards West upto H/o Sushil near Gali No. 6 12 Qtr. Road 1DVLW9M3 ; then towards North upto North-East corner of GJU 1DMU5MF6 on Sirsa-Hisar-Delhi National Nighway - 09 via Kanhiya Sweets 1DGQTWJ2, Gali No. 6 Tibba Dana Sher on Mill Gate Road & HSVP Disposal Boundary 1D8H5YF2 which is starting point.



**Ward No. 8:-** Starting from Chogan Mata Mandir (ITI corner) 1DWY68R5 ; then towards East upto Brahman Kuttia 1DOF3T37 alongwith boundary wall of ITI & Gyan Shuttering store 1DHJ65E0; then towards North-East upto Vita Booth 1DKUAOV1 at 12 qtr road via Punjabi Bagh & Suman High School 1DNO23W9; then towards South-East alongwith 12 Qtr. road upto H/o Kiran near Manohar Atta Chakki 1DLJC2D9 ; then towards South upto Golden School 1DB1P2Y5 ; then towards East upto Chirag Properties 1DBWRMO5 ; then towards South upto H/o Saroj 1D4PWB3 ; then towards South-West upto Old Drinking Water Nala alongwith Agriculture farm 1DNQYCY7; then towards South- East upto HSVP Water Works alongwith Old Drinking Water Nala 1DF6NV37 ; then towards South-West upto HSVP Sector-3 Corner on 44 Feet Road 1DG41E24; then towards North-West upto Valmiki Chowk 1DOKP4H3 Via Leelawati Hospital& Balaji Chowk alongwith 44 Feet Road; then towards South-West upto Shiv Chowk 1D7UKLD4 ; then towards North-West upto Shivalik School 1D3CMU64; then towards North-East upto Sh. Hanuman Mandir Park 1D4MN213; then towards North upto South-East corner of ITI 1D73PBD7; then towards West upto South-West corner of ITI on Thandi Sadak 1DCMC510; then towards North – East upto Chogan Mata Mandir (ITI corner) 1DWY68R5 which is starting point.

**Ward No. 9:-** Starting from Airport Chowk at Sirsa-Hisar-Delhi Highway -09 1DGDH8W2; then towards South-East up to D.S. Hotel 1DM1T1A9 Near Radha Swami Satsang Vyas alongwith Sirsa-Hisar-Delhi Highway -09 ; then towards West upto Property Dealer Office 1D21VW92; then towards South upto Drinking Water Nala 1DP1MJF7; then towards West upto end corner of Sector-3 1D4GKO36 on Railway line alongwith Drinking Water Nala via H/o Dharmpal 1DECYY51 & Ludhiana Railway line; then towards North-East alongwith Boundary line of Sector-3 upto HSVP Water Works 1DF6NV37; then towards North- West upto Agriculture Farm alongwith Drinking Water Nala 1DNQYCY7 ; then towards North-East up to H/o Saroj 1D4PWB3 ; then towards North upto Parveen Bijli Shop 1DNQUPK8 Gali No 18 on 12 Qtr. Road; then towards East upto H/o Kamlesh 1DL49C4 via Yog School, Sher Singh Depot 1DN1DTL5, Hanuman Halwai & Goyal Kiryana Store ; then towards North-East upto Bishnoi Kiryana Store 1D1JA436 on Captain School Road via Lord Vishnu School 1D3W4FR6 wali gali & H/o Satbir near Sita Ram Tubewell 1DKEAYV9 ; then towards North-West upto Apsara Beauty Parlour on captain School Road 1DRLTK46; then towards North-East upto Prashar Bijli Shop in Vinod Nagar on Mill Gate Road 1D7KY5M7; then towards West upto HTM Police Thana 1DFYKB21; then towards North upto AirPort Chowk 1DGDH8W2 which is starting point.

**Ward No. 10:-** Starting from Narang House (1DK6DP11) Near Holly Child School towards East via Ludhiana Railway Line, H/o Dharmpal (1DECYY51) upto Nala Crossing (1DP1MJF7); then towards South upto Main Gate of Arman Society (1D4NQ7L5); then towards East upto John Cena Hair Do Shop (1DM7LEL7) Via Khattu Vastralaya (1DOGUW25); then towards South upto Manish Jewellers (1D8JW914); then towards East upto Nancy Hospital (1DJAQ8V1); then towards South upto BHP Beej Bhandar (1DFE3JD1) then alongwith the Boundary of BHP Temple (1DUNP348) upto Shyam Cloth House (1DHAD355); then towards East upto H/o Hari Parshad on Dashmi Mandir Road (1DMQECM7); then towards South upto Shree Hanuman Temple Near New Bus Stand Satroad (1DPJ9CT0); then towards West upto H/o Ajaibir Singh (1DC7W244); then towards North upto Surya Nagar Fatak (Bhiwani Railway Line); then towards West upto Narang House (1DK6DP11) Near Holly Child School which is starting point.

**Ward No. 11:-** Starting from Junction of Jakhal Railway Line and Mirjapur Road (1DY2NKC7) towards North-East alongwith Eastern MC Limit Boundary upto Raipur road (1DD8DM82); then towards East upto Junction of Balsamand Distributory and Dhani Raipur Road (1DRF59Q5); then towards South-West-South alongwith Balsamand Distributory upto Junction of Balsamand Distributory and Delhi-Hisar Road (1DV52LE5); then towards East-South alongwith Hisar-Delhi Road upto Prithvi Raj Chauhan Chowk (1D44UHA1); then towards East alongwith Hisar-Delhi Road upto MC Limit (1DF7DNF8); then towards West alongwith MC Limit upto Rewari railway line; then towards West alongwith rewari railway line upto Balsamand Distributory (1DVHCRW9); then towards South-West alongwith Balsamand Distributory (1DTK6JF3) (i.e also Southern Bye-Pass); then towards North upto MRF Station MC Hisar (1D72BR83); then towards East alongwith inside road of Satrod Khas Khurd upto Shree Shiv Mandir (1DEKRFC3); then towards North-East-North upto Baba Harshakpuri Temple (1DUNP348); then towards West upto BHP Beej Bhandar; then towards North upto Nancy Hospital (1DJAQ8V1); then towards West upto Manish Jewelers (1D8JW914); then towards North upto John Sinha Hair Du (1DJKJ7O2); then towards West upto Arman Society BHP Colony (1DLQT7M7); then towards North via Ultratech Cement Store upto Hisar-Delhi Road (1D5W3EA4); then towards North-West alongwith Hisar-Delhi Road upto Junction of Hisar-delhi Road and Jakhal Railway Line; then towards North-East alongwith Jakhal Railway Line upto Junction of Jakhal Railway Line and Mirjapur Road (1DY2NKC7) which is the starting point.

**Ward No. 12:-** Starting from Junction of Old Delhi-Sirsa-Hisar Road and Sector-1 & 4 road (1D7C8UH7) towards East alongwith Old Delhi-Sirsa-Hisar Road via Tower Enclave (1DY2VEE7) , Southern Boundary of Vidyut Bhawan (1DH7DTF2), Rewari Railway Line (overhead Bridge) upto East-North corner of MRF Station MC Hisar (1DQ8CE10); then towards South upto Southern Bye-Pass (1DU8VVN5); then towards West alongwith Southern Bye-Pass upto Pulia (1DLEYFU8) OP Jindal School Road; then towards North alongwith OP Jindal School Road

upto Sector-9&11 Main Road (1D9M5267); then towards West alongwith Main road Sector- 9&11 upto Junction of Sector 9&11 Main Road and Tosham Road (1DVJVER2) near Police Naka; then towards North Tosham Road, upto ITI chowk(1DP7NQW2) (Junction of Tosham road and Jindal Hospital Road); then towards East alongwith Jindal Hospital Road; then towards North-West Corner of Jindal Hospital (1DVTGHV8); then towards east alongwith Northern Boundary wall of Jindal Hospital upto North-East corner of Jindal Hospital; then towards South alongwith Jindal Hospital Boundary upto House No. C-257 (1DWTEFJ1) then alongwith House No. C-257 (1DWTEFJ1) towards North upto H.No. 287 Model Town Extension (1DGQ59E0); then towards West upto House of Kamra 44 (1DJU5924); then towards North Junction of Old Delhi-Sirsa-Hisar Road and Sector-1 & 4 road (1D7C8UH7) which is the starting point.

**Ward No. 13:-** Starting from Junction of Old Delhi-Sirsa-Hisar road and Rewari railway line (1D9RPMF8) (near shanti mission Hospital) then toward north along with railway line via Sardha Public School (1D3YVQ89) upto Railway Double Phatak (1DN26CC0) ; then towards East alongwith Delhi Railway line upto junction of railway Line, 44 Feet Road and sector 1 & 4 road (1D68R3J2); then towards South along with sector 1 & 4 road Junction of Delhi-Sirsa Road; then towards South alongwith via Old Hisar-Delhi Road alongwith adjacent Dev Petrol Pump (1D7C8UH7) Wali Gali upto H.No. 44 Kamra House (1DJU5924); then towards East H.No. H.No. 287 (1DGQ59E0) Model Town Extension; then towards South H.No. C-257 (1DWTEFJ1) ; then towards West-North alongwith Eastern Boundary of Jindal Hospital Road upto North-east corner of Jindal Hospital Boundary (1DVTGHV8); then towards West-North alongwith Jindal Hospital Quarters Boundary wall upto East-West corner of Jindal Hospital Quarters Boundary wall (1DVTGHV8); then towards West alongwith North-West Jindal Hospital Quarters Boundary wall (1DVTGHV8); then towards South-East alongwith Jindal Hospital Boundary upto wall Jindal Hospital Road (1DVTGHV8); then towards North alongwith Jindal Hospital Road upto Jindal Chowk (1D7C8UH7); then towards West alongwith Old Delhi-Sirsa-Hisar road via Vicky Bike Point (1DGK9ER2) at Dabra Chowk upto Junction of Old Delhi-Sirsa-Hisar road and Rewari railway line (near shanti mission Hospital) (1D9RPMF8) which is the starting point.

**Ward No. 14:-** Starting from Junction of southern bypass and rajgarh railway line (1D9RPMF8); then towards north alongwith upto shanti mission hospital; then towards east alongwith old Delhi-Sirsa-Hisar road upto sharma Bikaner sweets (1D7C8UH7); then towards South on Jindal Hospital road upto ITI Chowk (1DRGT2A9); then towards south alongwith Tosham road upto sector 9&11 main road (near police naka) (1D5DPUL7); then towards east on main road on sector 9&11 upto OP Jindal school road (1D9M5267); then towards south along with OP Jindal school upto Pulia (1DLEYF8); then towards west alongwith Balsamand distributory alongwith southern bypass upto Junction of southern bypass and Rajgarh railway line (1D9RPMF8) which is the starting point.

**Ward No. 15:-** Starting from Fresh Food Bakers (1DNN6HP1) at Camp Chowk towards North Via DHBVN old Office (1DQ2W7E4) up to Railway Line; then towards East along with railway line Via up to double Fatak at Thandi Sarak (1DC3PGB5); then towards North up to Safedi ki Bhatti (1DBRCUW4); then towards East up to house of Maan Singh (1DEDLDN3) opposite; then towards South up to Shiv Chowk (1DCQVV50); then towards East up to Chahal Park (1D4O85O0); then towards South upto via Bala ji Chowk (1DCW1R34), Ramlila Chowk (1DNDOTG8) up to house of Ram Kumar Bhutia (1D9Y1J88); then towards on 44 feet road towards Sector-3&5 (1DALVJM3) up to street No. 1; then towards West upto Rewari Railway Line(1DUO2OO7); then towards North alongwith railway line upto (1DW4V7C6) Khatu Shyam Enterprises on Phatak; then towards West alongwith Railway Line upto CMC Hospital (1DDKAJT8); then towards West-South alongwith Old Delhi-Sirsa Road upto Fresh Food Bakers (1DNN6HP1) at Camp Chowk which is the starting point.

**Ward No. 16:-** Starting From Camp Chowk (1DGWWA94, Haryana Tourism Department GOH) at Hisar City road towards East via Town Park, Shanti Devi Hospital (1DNK2451, SURENDER KUMAR) upto Baagad Railway Line; then towards South alongwith Baagad railway Line via Balmiki Choupal upto Junction of Baagad Railway Line (1DBYGND5, Dharshan Kumar) Southern Bye-Pass; then towards West alongwith Southern Bye-Pass Road upto Junction of Kaimri Road Southern Bye-Pass Road (1DY6MDU3ARJUN LAMBA); then towards North alongwith Kaimri road via labour chowk, PLA Community Centre upto Camp Chowk (1DGWWA94, Haryana Tourism Department GOH) at Hisar City which is the starting point.

**Ward No. 17:-** Starting from Gali No. 1 Jawahar Nagar at Rajgarh road (Vita Booth) (1DC134O3, M.S SHEORAN) towards East upto Juneja Clinic (1DGLOTG5, SS KHURANA) at Kaimri Road opposite Community Centre; then towards South via Labour Chowk, Southern Perpheri road upto Junction of Kaimri road and railway phatak (1DECM5A0Dayanand); then towards South-West alongwith railway line upto Sach Market Mor (1DC19YL2, Kamlesh); then towards North alongwith Sach Market upto Sharma Niwas (1D8T3W35, 39q) near MC toilet; then towards North-West alongwith back side of fields (1DHMUN43, Roshan) via Shani Mandir upto H/o Chand Ram Verma (1D44G1O7); then towards North alongwith Toni Horse Farm (1D8MONC8, Plot No. 86a) upto Southern Bye-Pass near Water works (29.129370,75.715933); then towards West along with Hisar Bye Pass road upto Junction

of Hisar Bye Pass road and Rajgarh road (1DBODUE5RENU GULATI); then towards North alongwith Eastern side of Rajgarh road upto Gali No. 1 Jawahar Nagar at Rajgarh road (vita Booth) (1DC134O3, M.S SHEORAN) which is the first starting point.

**Ward No. 18:-** Starting from Junction of Kaimri Road and Southern By-Pass(1D432Q89 VANDANA WO SH KULBIR SINGH) towards East side alongwith Southern Bye-Pass Road (1DP5FCJ9, RAKESH / JHANGI RAM, 248//16.) upto Eastern MC Limit Boundary; then towards South alongwith Eastern MC Limit Boundary upto South-East corner (1DMKKNV6, Satyanarayan) of MC Limit Boundary; then towards west alongwith Southern MC Limit Boundary upto Rajgarh road (1D8CQG63, 3530, Godara Hara Tall); then towards alongwith Rajgarh road upto Bikaner Sweets Gali No. 3 (1DELN5T, Ishwar Singh) at Rajgarh road; then towards East alongwith Kids Heaven School upto Sheetal bhawan ( 1DTCU8B3, Baljit Singh) ; then towards North alongwith Drain/Nala upto O.P. Suthar (1D5LQ9H0, Kiran); then towards East Sant Nishchal School to Abhay (1DYGM8M1 289, Navdeep Colony); then towards North upto corner of Azad Bhawan H.No. 89 (1DOG8RN9, Randhir Singh); then towards East corner of Dharmbir Properties (1D61V2W8, Dharamveer Khatana); then towards East-North upto Maruti Properties (1DAKEAT4 , 318A, Navdeep Colony) ; then towards East via Jaivir Gujjar M.C House road upto Toni Horse Farm (1DNPVOQ7, VIJAY PARKASH); then towards South upto H/o Chand ram Verma (1D44G1O7, Chand Ram) then toward West-South back side of fields upto Shani Dev Mandir (1DJWYH25, 1234, Umed Vihar Colony); then towards South upto Sharma Niwas near MC Toilet (1D8T3W35, 39q); then towards East alongwith Sach Market road upto Sach Market Mor ( 1DC19YL2 Kamlesh); then towards East-North alongwith Baagad Railway Line (1DECM5A0Dayanand); then towards North via Kaimri Road upto from Junction of Kaimri Road and Southern By-Pass (1D432Q89 VANDANA WO SH KULBIR SINGH) which is the starting point.

**Ward No. 19:-** Starting from Junction of Western Side MC limit Boundary and Balsamand Sub Branch Distributory (29.1360, 75.6916 ) towards East alongwith Balsamand Sub Branch Distributory via Rajgarh Road upto Eastern side of Open land of Balwant Gujjar (1D6V3WJ8, MAHABIR SINGH / RAM PARTAP); then towards South alongwith Toni Horse Farm (1DNPVOQ7, VIJAY PARKASH) upto Jaivir Gujjar M.C Wali Gali; then towards West alongwith Jaivir Gujjar M.C Wali Gali upto Maruti Properties (1DAKEAT4 , 318A, Navdeep Colony); then towards South-West upto corner of Dharmbir Properties (1D61V2W8, Dharamveer Khatana); then towards West upto Azad Bhawan H.No. 89 (1DOG8RN9, Randhir Singh); then towards South upto Abhay, Ram Parshad (1DYGM8M1 289, Navdeep Colony); then towards East via Shiv Villa 26, Sant Nishchal School (back side), O.P. Suthar (1D5LQ9H0, Kiran) upto water supply drain/nala back side Gher of Jaggi; then towards South alongwith drain/nala upto East-South corner of Shital Bhawan ( 1DTCU8B3, Baljit Singh); then towards West alongwith Northern side of street upto South-West corner of Shops Nand Ram Sangwan (1DELN5T, Ishwar Singh) at Rajgarh road; then towards South alongwith Eastern side of Rajgarh road upto Junction of MC Limit Boundary (1DOGLE8, 4646, Indra Colony) and Rajgarh road; then towards West alongwith MC Limit Boundary via Rajgarh road upto West-South corner of MC Limit Boundary (i.e also Eastern side of Peripheri of Village Gangwa) (1D27CVR9, Rajendra); then towards North-East-North alongwith Western side of M.C. Limit Boundary upto Junction of Western Side MC limit Boundary and Balsamand Sub Branch Distributory (29.1360, 75.6916 ) which is the first starting point.

**Ward No. 20:-** Starting From Junction of Western MC limit Boundary and Bathinda Railway Line (29.162855, 75.699010) towards East alongwith Bathinda Railway Line upto Gali H.No. 135 (1DGGOHR7); then towards North upto H.No. 135 (1DBN4WK0); then towards East alongwith CAV School Gali via H.No. 70, Goldy Copy Udyog upto Shree Shyam Enterprises (1DKBO2T8) opposite CAV School Wali Gali; then towards East-North upto Gyan Jyoti Chowk (1D1KA8Q4); then towards East via Sushila Bhawan (1DNFVBN3) upto Prijat Chowk (1DMNBHD3); then towards South alongwith Hisar City road upto Bathinda Railway Line (1DMH3CW4); then towards East upto Sabji Mandi Overbridge Railway Phatak; then towards South alongwith Sabji Mandi Overhead Bridge (1DQ2W7E4) upto Camp Chowk (1DKMTG86); then towards South alongwith kaimri road upto drinking water drain at kaimri road (1D3U1GQ4); then towards West alongwith Drinking Water Drain upto Rajgarh road (vita booth) (1DHHAM45); then towards South alongwith rajgarh road upto Balsamand Sub Branch Distributory (1DR9C9R8); then towards West upto Junction of MC Limit Boundary and Balsamand Sub Branch (29.136070, 75.694377) Distributory; then towards North alongwith Western MC Limit Boundary upto Junction of Western MC limit Boundary and Bathinda Railway Line (29.162855, 75.699010) which is the starting point.

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.